



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 15.08.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 732/22 धारा 302 भादवि के ट्रिपल मर्डर से सम्बन्धित नामित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.08.22 को वादिया श्रीमति शशीप्रभा पत्नी बृजपाल निवासी पट्टी चौधरान अनुपम स्कूल शिव मन्दिर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके पुत्र अमर उर्फ लक्ष्य तोमर पुत्र बृजपाल निवासी पट्टी चौधरान अनुपम स्कूल शिव मन्दिर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने उसके पति ब्रजपाल (उम्र करीब 60 वर्ष) व दो पुत्री अनुराधा उर्फ मिटठू (उम्र 17 वर्ष) एवं ज्योति (उम्र करीब 24 वर्ष) की बसाका (फाली) से वार कर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 732/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 732/22 धारा 302 भादवि में हुए ट्रिपल मर्डर से सम्बन्धित नामित अभियुक्त अमर उर्फ लक्ष्य तोमर पुत्र

बृजपाल निवासी पट्टी चौधरान अनुपम स्कूल शिव मन्दिर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त अमर उर्फ लक्ष्य तोमर ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता ब्रजपाल द्वारा उसको सम्पत्ति से बेदखल कर दिया गया था, इसलिए वो अपने पिता से नाराज रहता था । इसी के चलते अभियुक्त ने दिनांक 14/15.08.2022 की रात्रि में अपने पिता ब्रजपाल की बसाका (फाली) से वार कर हत्या कर दी थी तथा बीच-बचाव में आयी अपनी दोनों बहनों अनुराधा उर्फ मिटठू एवं ज्योति की भी हत्या कर दी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-अमर उर्फ लक्ष्य तोमर पुत्र बृजपाल निवासी पट्टी चौधरान अनुपम स्कूल शिव मन्दिर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 15-08-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 288/22 धारा 457/380/511
भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 15.08.2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी अय्युब पुत्र जमालुददीन निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त विकास उर्फ जोनी पुत्र दयाचन्द निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के द्वारा 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर रात्रि में वादी के घर का गेट खोलकर घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास करना तथा भागते हुए अभियुक्त विकास उर्फ जोनी उपरोक्त को वादी व जनता के लोगों द्वारा मौके पर पकड लिया । अभियुक्त के 02 अन्य साथी मौके से फरार हो गये । अभियुक्त विकास उर्फ जोनी को वादी व जनता के लोगों द्वारा थाने लाया गया । थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास उर्फ जोनी को गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 288/22 धारा 457/380/511 भादवि पंजीकृत किया गया । एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विकास उर्फ जोनी पुत्र दयाचन्द निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस -

1-का0 1013 गौरव थाना सिंघावली अहीर

2- एचजी 725 सतेन्द्र गिरि



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 15.08.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-राजपाल पुत्र कलीराम निवासी ग्राम सुन्हैड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-धर्मवीर पुत्र कलीराम निवासी ग्राम सुन्हैड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।
- 2-का0 217 राधेश्याम सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।
- 3-का0 1022 अजय प्रताप थाना खेकड़ा बागपत ।